



क्षेत्रीय आयुर्वेदीय त्वकरोग अनुसंधान संस्थान

(सी.सी.आर.ए.एस., आयुष मंत्रालय, भारत सरकार)

ओ३/, न्यू मेन्टल कैम्पस, मेघानीनगर, अहमदाबाद - ३८००१६ (गुजरात)

REGIONAL AYURVEDA RESEARCH INSTITUTE FOR SKIN DISORDERS

(C.C.R.A.S., Ministry of AYUSH, Govt. of India)

O/3, NEW MENTAL CAMPUS, MEGHANINAGAR, AHMEDABAD - 380 016 (Gujarat)

Tele Fax: 079-22682155, Phone: 079-22683065

E-mail: rarisd.amd-ayush@gov.in & rarisd.ahmedabad@gmail.com

फा.सं.3-2/क्षे.आ.त्व.अ.सं/अहम./स्था./2017-18/

दिनांक: 24-11-2017

विज्ञापन सं. 01 /2017 - 18

प्रत्यक्ष साक्षात्कार

केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएएस), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीनस्थ क्षेत्रीय आयुर्वेद त्वकरोग अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद में एनपीसीडीसीएएस कार्यक्रम / आयुर्वेद मोबाइल हेल्थ केअर प्रोग्राम अंडर एस.सी.एस.पी. के अंतर्गत अनुबंध (संविदा) के आधार पर पद नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार किया जाना है। विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	योग्यता विवरण	आयु	लिखित परीक्षा व साक्षात्कार दिनांक एवं समय	पारिश्रमिक भुगतान राशि
1.	अनुसंधान सहयोगी (आयु.) Research Associate (Ay.)	01* (एनपीसीडीसीएस)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ए.एम.एस उपाधि	अधिकतम 27 वर्ष	दिनांक:08-12-2017 उपस्थिति समय प्रातः 09:00 बजे लिखित परीक्षा व साक्षात्कार	रु. 36,000/- + मकान किराया भत्ता नियमानुसार
2.	वाहन चालक Driver	01# (आयुर्वेद मोबाइल हेल्थ केअर प्रोग्राम अंडर एस.सी.एस.पी.)	10 वीं कक्षा पास एवं लाइट तथा हेवी वाहन के लिए विधिमाम्य ड्राइविंग लाइसन्स और दो सालों का अनुभव	अधिकतम 27 वर्ष	दिनांक: 07-12-2017 उपस्थिति समय प्रातः 09:00 बजे चालन परीक्षा & साक्षात्कार	रु. 16,000/- प्रतिमाह

*क्र.सं. 1 की नियुक्ति जिला-सुरेन्द्रनगर के किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में की जायेगी।

क्र.सं. 2 की नियुक्ति आयुर्वेद मोबाइल हेल्थ केअर प्रोग्राम अंडर एस.सी.एस.पी. के अंतर्गत अहमदाबाद में की जायेगी।

- पदों से सम्बन्धित आवश्यक योग्यता एवं आयु सीमा वाले इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रोफार्मा में पद के समक्ष अंकित तिथि में अपना आवेदन प्रस्तुत करें। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को उसी दिन साक्षात्कार के लिये उपस्थित होना होगा। बायोडेटा का नमूना (Format) परिषद् की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। भविष्य में किसी भी प्रकार की संशोधन-सूचना परिषद् की वेबसाइट www.ccras.nic.in पर ही अपलोड की जायेगी।
- साक्षात्कार के लिए बुलाये गये उम्मीदवारों को सत्यापन हेतु अपने शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि एवं इनका एक सैट छायाप्रति तथा हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा।
- उम्मीदवार की आयु सीमा की गणना दिनांक 01.11.2017 को की जायेगी। एससी / एसटी / ओबीसी उम्मीदवार को भारत सरकार के सेवा नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- क्र.सं. 2 नियुक्त उम्मीदवार को आयुर्वेद मोबाइल हेल्थ केअर प्रोग्राम अंडर एस.सी.एस.पी. अंतर्गत अहमदाबाद शहर के बड़े इलाके में तथा नजदीकी गाँव में सफर करना पड़ेगा।
- उक्त पदों पर भर्ती 06 माह के लिये की जायेगी। परियोजना के आधार पर समय अवधि को कम अथवा अधिक किया जा सकेगा तथा परियोजना की समाप्ति के साथ स्वतः ही कार्य अवधि समाप्त हो जायेगी।
- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं संविदा आधार पर होगी। भविष्य में इस नियुक्ति को नियमित अथवा स्थायी करने का दावा (अधिकार) मान्य नहीं होगा।
- क्र.सं. 1 चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
- क्र.सं. 02 चयन ड्राइविंग कौशल और साक्षात्कार पर आधारित किया जाएगा।
- आवेदक को लिखित परीक्षा / साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी प्रकार का टीए / डीए देय नहीं होगा।
- चयन समिति को आवेदक को चयन एवं अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है।

प्रभारी सहायक निदेशक